

Exam Level	: SSC CGL Tier 1 ▾
Test Date	: 26 Sep 2025
Test Time and Shift	: 12:30 PM (Shift-2)

Correct Option selected Wrong Option selected Correct Option Not Answered

PART-A (General Intelligence and Reasoning)

[Click Here to Challenge Question No.: 1](#)

Q.No: 1 Choose the address that is the same as the one given below.

Flat No. 6A, Pearl View, Salt Lake, Kolkata, West Bengal - 700091

वह पता चुनें जो नीचे दिए गए पते के समान हो।

Flat No. 6A, Pearl View, Salt Lake, Kolkata, West Bengal - 700091

Flat No. 6A, Pearl View, Salt Lake, Kolkata, West Bengal - 700091

Flat No. 6A, Pearl View, Salt Lake, Kolkata, West Bengal - 700091

Flat No. 6A, Pearl View, Salt Lake, Kolkata, Assam - 700091

Flat No. 6A, Pearl View, Salt Lake, Kolkata, Assam - 700091

Flat No. 6A, Pearl View, Salt Lake, Kolkata, Odisha - 700091

Flat No. 6A, Pearl View, Salt Lake, Kolkata, Odisha - 700091

Flat No. 6A, Pearl View, Salt Lake, Kolkata, Bihar - 700091

Flat No. 6A, Pearl View, Salt Lake, Kolkata, Bihar - 700091

[Click Here to Challenge Question No.: 2](#)

Q.No: 2 Seminars were held in Bhopal, Indore, and Raipur on 7th, 9th, and 11th August.

• Indore's seminar was held after Bhopal's.

• Raipur's seminar was not on 11th August.

When was the Indore seminar held?

भोपाल, इंदौर और रायपुर में 7th, 9th, और 11th अगस्त को सेमिनार आयोजित किए गए।

• इंदौर का सेमिनार भोपाल के बाद आयोजित किया गया।

• रायपुर का सेमिनार 11th अगस्त को नहीं था।

इंदौर सेमिनार कब आयोजित किया गया था?

7th August

7th अगस्त

9th August

9th अगस्त

11th August

11th अगस्त

8th August

8th अगस्त

[Click Here to Challenge Question No.: 3](#)

Q.No: 3 What should come in place of the question mark '?' in the following number series?

76, 80, 71, 87, 62, ?

निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह '?' के स्थान पर क्या आएगा?

76, 80, 71, 87, 62, ?

86

86

98

98

72

72

106

106

[Click Here to Challenge Question No.: 4](#)

Q.No: 4 In the following number series, a wrong number is given. Find out the WRONG number.

9, 19, 39, 78, 159, 319

निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक गलत संख्या दी गई है। गलत संख्या ज्ञात कीजिए।

9, 19, 39, 78, 159, 319

9

9

39

39

78

78

159

159

[Click Here to Challenge Question No.: 5](#)

Q.No: 5 What is the remainder when 987654321 is divided by 9?

987654321 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?

1

1
3
3
0
0
9
9

[Click Here to Challenge Question No.: 6](#)

Q.No: 6	<p>If $11 \rightarrow 1331, 12 \rightarrow 1728$, then $13 \rightarrow ?$</p> <p>अगर $11 \rightarrow 1331, 12 \rightarrow 1728$, तो $13 \rightarrow ?$</p>
	2028
	2028
	2400
	2400
	2197
	2197
	2500
	2500

[Click Here to Challenge Question No.: 7](#)

Q.No: 7	<p>If $P + Q = 2R$ and $R + S = 2P$, then:</p> <p>अगर $P + Q = 2R$ और $R + S = 2P$, तो:</p>
	$P + R = Q + S$
	$P + R = Q + S$
	$P + R = 2S$
	$P + R = 2S$
	$P + S = Q + R$
	$P + S = Q + R$
	$P + R = 2Q$
	$P + R = 2Q$

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 8](#)

Q.No: 8	<p>Find the odd one out.</p> <p>Lucknow, Kanpur, Varanasi, Jaipur, Agra</p> <p>इनमें से विषम को चुनें।</p> <p>लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, जयपुर, आगरा</p>
	Varanasi
	वाराणसी
	Lucknow
	लखनऊ
	Jaipur
	जयपुर
	Kanpur
	कानपुर

[Click Here to Challenge Question No.: 9](#)

Q.No: 9	Given in the table are the number codes for the given letters. Select the combination of numbers so that the letters arranged accordingly will form a meaningful word. 5 4 3 2 1 R O I C D तालिका में दिए गए अक्षरों के लिए संख्या कोड दिए गए हैं। संख्याओं का ऐसा संयोजन चुनिए जिससे अक्षरों को उनके अनुसार व्यवस्थित करने पर एक सार्थक शब्द बन जाए। 5 4 3 2 1 R O I C D
	2, 4, 5, 3, 3, 1, 4, 5
	2, 4, 5, 3, 3, 1, 4, 5
	2, 4, 5, 5, 3, 1, 4, 5
	2, 4, 5, 5, 3, 1, 4, 5
	2, 5, 5, 3, 1, 4, 5, 4
	2, 5, 5, 3, 1, 4, 5, 4
	2, 4, 4, 5, 3, 1, 3, 5
	2, 4, 4, 5, 3, 1, 3, 5

[Click Here to Challenge Question No.: 10](#)

Q.No: 10	When all the digits of the number '8372625374895' are arranged in descending order, what is the number obtained when the 3rd digit from the right end is subtracted from the 4th digit from the left, after replacement? जब संख्या '8372625374895' के सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो प्रतिस्थापन के बाद, दाएं छोर से तीसरे अंक को बाएं छोर से चौथे अंक से घटाने पर प्राप्त संख्या क्या है?
	4
	4
	8
	8
	5
	5
	6
	6

[Click Here to Challenge Question No.: 11](#)

Q.No: 11	A man rows 12 km downstream in 3 hours and 6 km upstream in 2 hours. What is the speed of the stream? एक आदमी धारा के अनुकूल 12 किमी 3 घंटे में और धारा के प्रतिकूल 6 किमी 2 घंटे में नाव चलाता है। धारा की गति क्या है?
	1 km/h 1 किमी/घंटा
	0.5 km/h 0.5 किमी/घंटा
	2 km/h 2 किमी/घंटा
	1.5 km/h 1.5 किमी/घंटा

[Click Here to Challenge Question No.: 12](#)

Q.No: 12	Find the missing number: 12 : 441 :: 13 : ? लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए: 12 : 441 :: 13 : ?
	961
	961
	967

967
964
964
965
965

[Click Here to Challenge Question No.: 13](#)

Q.No: 13 Read the following statement carefully and identify the conclusion that follows.

Statement:

Some trees are tall. All tall things are visible.

Conclusions:

I. Some trees are visible.

II. All trees are visible.

निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निष्कर्ष निकालें।

कथन:

कुछ पेड़ ऊँचे हैं। सभी ऊँची चीज़ें दिखाई देती हैं।

निष्कर्ष:

I. कुछ पेड़ दिखाई देते हैं।

II. सभी पेड़ दिखाई देते हैं।

Only I follows

केवल I अनुसरण करता है

Only II follows

केवल II अनुसरण करता है

Both I and II follow

I और II दोनों अनुसरण करते हैं

Neither I nor II follows

न तो I और न ही II अनुसरण करता है

[Click Here to Challenge Question No.: 14](#)

Q.No: 14 Read the following statement carefully and identify the assumption that follows.

Statement:

A school circular states: "Mobile phones are not allowed inside classrooms."

Assumptions:

I. Phones distract students.

II. Students often bring phones to class.

निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद आने वाली धारणा की पहचान करें।

कथन:

एक स्कूल परिपत्र में कहा गया है: "कक्षाओं के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना मना है।"

धारणाएँ:

I. फ़ोन छात्रों का ध्यान भटकाते हैं।

II. छात्र अक्सर कक्षा में फ़ोन लाते हैं।

Only I is implicit

केवल I निहित है

Only II is implicit

केवल II निहित है

Both are implicit

दोनों निहित हैं

Neither is implicit

कोई भी निहित नहीं है

Q.No: 15 What is the next number in the series?
625, 125, 25, ___

निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सी संख्या होगी?
625, 125, 25, ___

10

10

5

5

15

15

1

1

Click Here to Challenge Question No.: 16

Q.No: 16 What comes next?
AZ, BY, CX, DW, ?

निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा?
AZ, BY, CX, DW, ?

EV

EV

FU

FU

GT

GT

HS

HS

Click Here to Challenge Question No.: 17

Q.No: 17 If "DELHI" is coded as "CDKGH", how is "MUMBAI" coded?
यदि "DELHI" को "CDKGH" के रूप में कोडित किया जाता है, तो "MUMBAI" को किस प्रकार कोडित किया जाएगा?

LTLABH

LTLABH

LTLAZH

LTLAZH

LULABH

LULABH

KTAAH

KTAAH

Click Here to Challenge Question No.: 18

Q.No: 18 What comes next?
AG, BH, CI, ?

निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा?
AG, BH, CI, ?

DJ

DJ

EK

EK

FL

FL

[Click Here to Challenge Question No.: 19](#)

Q.No: 19 Complete the series,
2, 3, 5, 7, ?
निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें।
2, 3, 5, 7, ?

9

9

11

11

13

13

15

15

[Click Here to Challenge Question No.: 20](#)

Q.No: 20 A rectangular field has a length of 50 meters and a width of 30 meters. What is the length of its diagonal?
एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या है?

58 m

58मी

56 m

56मी

50 m

50 मी

54 m

54मी

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 21](#)

Q.No: 21 If SMART is coded as UNCTU, how is TRICK coded?
यदि SMART को UNCTU लिखा जाता है, तो TRICK को किस प्रकार लिखा जाएगा?

UTJDL

UTJDL

VSKEL

VSKEL

WKIRT

WKIRT

XPQYU

XPQYU

[Click Here to Challenge Question No.: 22](#)

Q.No: 22 What is the product of all the digits on a calculator keypad (0-9)?
कैलकुलेटर कीपैड पर सभी अंकों (0-9) का गुणनफल क्या है?

0

0

326592

326592

5040

5040

[Click Here to Challenge Question No.: 23](#)

Q.No: 23	If BRIDGE is coded as CSJEHF, how is CSJEHF coded? यदि BRIDGE को CSJEHF के रूप में कोडित किया गया है, तो CSJEHF को कैसे कोडित किया जाएगा?
<input type="checkbox"/>	DTKFIG
<input checked="" type="checkbox"/>	DTKFIG
<input type="checkbox"/>	DTJFGI
<input type="checkbox"/>	DTJFGI
<input type="checkbox"/>	DSJFGI
<input type="checkbox"/>	DSJFGI
<input type="checkbox"/>	DTKFHI
<input type="checkbox"/>	DTKFHI

[Click Here to Challenge Question No.: 24](#)

Q.No: 24	If in a code language, MOBILITY is written as NPCJMJUJ, how is EXAMPLE written in that code? यदि किसी कूट भाषा में MOBILITY को NPCJMJUJ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में EXAMPLE को किस प्रकार लिखा जाएगा?
<input checked="" type="checkbox"/>	FYBNQMF
<input type="checkbox"/>	FYBNQMF
<input type="checkbox"/>	EYBNQMF
<input type="checkbox"/>	EYBNQMF
<input type="checkbox"/>	FYBNRME
<input type="checkbox"/>	FYBNRME
<input type="checkbox"/>	FZBNQMF
<input type="checkbox"/>	FZBNQMF

[Click Here to Challenge Question No.: 25](#)

Q.No: 25	Which of the following is not an anagram of the word "INTEGRAL"? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द "INTEGRAL" का विपर्यय नहीं है?
<input type="checkbox"/>	ALERTING
<input type="checkbox"/>	ALERTING
<input type="checkbox"/>	RELATING
<input type="checkbox"/>	RELATING
<input type="checkbox"/>	TRIANGLE
<input type="checkbox"/>	TRIANGLE
<input checked="" type="checkbox"/>	LITERAL
<input type="checkbox"/>	LITERAL

Exam Level	: SSC CGL Tier 1 ▾
Test Date	: 26 Sep 2025
Test Time and Shift	: 12:30 PM (Shift-2)

PART-B (General Awareness)

Click Here to Challenge Question No.: 26	
Q.No: 26	The Chandrayaan-3 lander, Vikram, used which advanced technology for hazard detection and avoidance during landing? चंद्रयान-3 लैंडर विक्रम में लैंडिंग के दौरान खतरे का पता लगाने और उससे बचने के लिए किस उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया?
	Lander Hazard Detection and Avoidance Camera and Processing Algorithm लैंडर खतरा पहचान और बचाव कैमरा और प्रसंस्करण एल्गोरिदम
	Synthetic Aperture Radar (SAR) सिंथेटिक एपर्चर रडार (एसएआर)
	Laser Doppler Imaging and AI-assisted navigation लेजर डॉप्लर इमेजिंग और एआई-सहायता प्राप्त नेविगेशन
	Laser Doppler Velocimeter लेजर डॉप्लर वेलोसिमीटर

Click Here to Challenge Question No.: 27	
Q.No: 27	The process of "coral bleaching" within the Indian Ocean is most directly linked to: हिंद महासागर के भीतर "प्रवाल विरंजन" की प्रक्रिया सबसे सीधे तौर पर निम्नलिखित से जुड़ी हुई है:
	Anthropogenically induced sea surface temperature increases मानवजनित प्रेरित समुद्री सतह का तापमान बढ़ता है
	Increased deep-sea mining गहरे समुद्र में खनन में वृद्धि
	Increased levels of ocean acidification from river runoff नदी अपवाह से महासागरीय अम्लीकरण का स्तर बढ़ गया
	The effects of increased Arctic ice melt आर्कटिक बर्फ पिघलने के बढ़ते प्रभाव

Click Here to Challenge Question No.: 28	
Q.No: 28	The "Jal Jeevan Mission" aims to provide functional household tap connections (FHTCs) to all rural households by 2024. Which of the following is a key challenge in achieving this ambitious goal? "जल जीवन मिशन" का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख चुनौती है?
	Lack of sufficient funding allocation for the mission. मिशन के लिए पर्याप्त धन आवंटन का अभाव।
	Ensuring the long-term sustainability of water sources and the quality of water supplied. जल स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता और आपूर्ति किए जाने वाले जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
	Limited participation of local communities in the planning and implementation process. योजना एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की सीमित भागीदारी।
	Absence of a robust monitoring mechanism to track progress. प्रगति पर नज़र रखने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र का अभाव।

Q.No: 29 What is a "mandapa" in traditional Indian temple architecture?

पारंपरिक भारतीय मंदिर वास्तुकला में "मंडप" क्या है?

Gateway tower

गेटवे टावर

Outer boundary wall

बाहरी सीमा दीवार

Pillared hall for worshippers

भक्तों के लिए स्तंभयुक्त हॉल

Water tank

पानी की टंकी

Click Here to Challenge Question No.: 30

Q.No: 30 Which is the largest and most famous monastery in Sikkim, known for its colorful murals and mask dances?

सिक्किम का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध मठ कौन सा है, जो अपने रंगीन भित्ति चित्रों और मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है?

Enchey Monastery

एन्चे मठ

Rumtek Monastery

रुमटेक मठ

Pemayangtse Monastery

पेमायांगत्से मठ

Tashiding Monastery

ताशीडिंग मठ

Click Here to Challenge Question No.: 31

Q.No: 31 Which of these writers won the International Booker Prize in 2021, along with translator Megan McDowell?

इनमें से किस लेखक ने अनुवादक मेगन मैकडोवेल के साथ 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता?

Olga Tokarczuk

ओल्गा टोकार्कजुक

Jokha Alharthi

जोखा अल्हार्थी

David Diop

डेविड डियोप

Mariana Enriquez

मारियाना एनरिकेज़

Not Answered

Click Here to Challenge Question No.: 32

Q.No: 32 Who won India's first gold in athletics at the CWG 2022?

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता?

Avinash Sable

अविनाश साबले

Eldhose Paul

एल्डोज़ पॉल

Murali Sreeshankar

मुरली श्रीशंकर

Neeraj Chopra

नीरज चोपड़ा

Q.No: 33 The Subsidiary Alliance system had which of the following conditions for the allied Indian rulers?

सहायक संधि प्रणाली में सहयोगी भारतीय शासकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें थीं?

They were allowed to maintain their own independent armies.

उन्हें अपनी स्वतंत्र सेनाएं बनाए रखने की अनुमति दी गई।

They had to keep a British Resident in their court.

उन्हें अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ा।

They were free to enter into alliances with other Indian rulers without British consent.

वे ब्रिटिश सहमति के बिना अन्य भारतीय शासकों के साथ गठबंधन करने के लिए स्वतंत्र थे।

They were not required to pay any revenue to the British.

उन्हें अंग्रेजों को कोई राजस्व देने की आवश्यकता नहीं थी।

Click Here to Challenge Question No.: 34

Q.No: 34 What does the BSA, 2023 provide about secondary evidence (like photocopies or scanned documents)?

बीएसए, 2023 द्वितीयक साक्ष्य (जैसे फोटोकॉपी या स्कैन किए गए दस्तावेज़) के बारे में क्या प्रदान करता है?

It is always preferred over primary evidence

इसे हमेशा प्राथमिक साक्ष्य से ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है

It is admissible only if the original is lost, destroyed, or unavailable for valid reasons

यह तभी स्वीकार्य है जब मूल प्रति खो गई हो, नष्ट हो गई हो या वैध कारणों से अनुपलब्ध हो

It must be printed in color only

इसे केवल रंगीन ही मुद्रित किया जाना चाहिए

It cannot be used in criminal cases

इसका प्रयोग आपराधिक मामलों में नहीं किया जा सकता

Not Answered

Click Here to Challenge Question No.: 35

Q.No: 35 Which of the following Air Chiefs in India was commissioned into the fighter stream of IAF in Dec 1984?

निम्नलिखित में से कौन से भारतीय वायु सेना प्रमुख दिसंबर 1984 में भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान दल में शामिल हुए थे?

RKS Bhadauria

आर.के.एस. भदौरिया

AP Singh

ए.पी. सिंह

B S Dhanoa

बी.एस. धनोआ

Vivek Ram Chaudhari

विवेक राम चौधरी

Not Answered

Click Here to Challenge Question No.: 36

Q.No: 36 Which among the following is NOT true about the Harappan culture?

हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?

They worshipped a male deity called Pashupati.

वे पशुपति नामक एक पुरुष देवता की पूजा करते थे।

Women wore ornaments made of gold, silver, copper, and bronze.

महिलाएं सोने, चांदी, तांबे और कांसे से बने आभूषण पहनती थीं।

There is clear evidence for the practice of Sati.

सती प्रथा के स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं।

Wheat and barley were the main crops grown.

गेहूँ और जौ यहां उगाई जाने वाली मुख्य फसलें थीं।

[Click Here to Challenge Question No.: 37](#)

Q.No: 37 Consider the following statements regarding minerals in India.

1. The Himalayan belt of India consists of copper, zinc, cobalt, and lead.
2. Most of the building stones, such as granite, marble, and gypsum, are found in Rajasthan.

Which of the statement(s) given above is/are CORRECT?

भारत में खनिजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. भारत के हिमालय क्षेत्र में तांबा, जस्ता, कोबाल्ट और सीसा पाया जाता है।
2. ग्रेनाइट, संगमरमर और जिप्सम जैसे अधिकांश इमारती पत्थर राजस्थान में पाए जाते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1 only

केवल 1

2 only

केवल 2

Both 1 and 2

1 और 2 दोनों

Neither 1 nor 2

न तो 1, न ही 2

[Click Here to Challenge Question No.: 38](#)

Q.No: 38 With reference to the theory of demographic transition, consider the following statements:

1. For the initial two state of the demographic cycle, a high fertility rate and death rate would result in high population growth.
2. In the third stage, both fertility and mortality factors would decline significantly.
3. The demographic transition theory does not explicitly take into account the migration factor.
4. Social and cultural factors can greatly affect the population, which can impact what the theory predicts.

Which of the statements given above is/are CORRECT?

जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जनसांख्यिकीय चक्र की प्रारंभिक दो अवस्थाओं के लिए, उच्च प्रजनन दर और मृत्यु दर के परिणामस्वरूप उच्च जनसंख्या वृद्धि होगी।
2. तीसरे चरण में, प्रजनन और मृत्यु दर दोनों कारकों में काफी गिरावट आएगी।
3. जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत स्पष्ट रूप से प्रवासन कारक को ध्यान में नहीं रखता है।
4. सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जनसंख्या को बहुत प्रभावित कर सकते हैं, जो सिद्धांत की भविष्यवाणी को प्रभावित कर सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

1, 2, and 3 only

केवल 1, 2, और 3

2, 3, and 4 only

केवल 2, 3, और 4

1, 3, and 4 only

केवल 1, 3, और 4

2 and 4 only

[Click Here to Challenge Question No.: 39](#)

Q.No: 39 Which gharana was influenced directly by the dhrupad tradition?

कौन सा घराना ध्रुपद परंपरा से सीधे प्रभावित था?

Gwalior Gharana

ग्वालियर घराना

Agra Gharana

आगरा घराना

Jaipur Atroli Gharana

जयपुर अट्रोली घराना

Rampur Saheswan Gharana

रामपुर सहेसवान घराना

[Click Here to Challenge Question No.: 40](#)

 Q.No: 40 Which of the following statements about basketball rules and skills is/are **correct**?

- 1) A team gaining ball possession must attempt a shot within 24 seconds, or it results in a shot clock violation.
- 2) A disqualification foul is awarded only when a player accumulates five personal fouls.
- 3) Reverse spin dribble is a defensive maneuver used exclusively for ball interception.

 बास्केटबॉल के नियमों और कौशलों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से **सही** है/हैं?

1. जिस टीम के पास गेंद होती है, उसे 24 सेकंड के भीतर शॉट का प्रयास करना होता है, नहीं तो शॉट क्लॉक उल्लंघन माना जाता है।
2. खिलाड़ी को केवल तब ही अयोग्यता (डिसक्वालिफिकेशन) फाउल दिया जाता है जब उसके पांच व्यक्तिगत फाउल हो जाएं।
3. रिवर्स स्पिन ड्रिबल एक रक्षा संबंधी चाल है, जो केवल गेंद को इंटरसेप्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है।

Only 1 is Correct

केवल 1 सही है

Only 2 is Correct

केवल 2 सही है

Only 3 is correct

केवल 3 सही है

1, 2 and 3 all are Correct

1, 2 और 3 सभी सही हैं

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 41](#)

Q.No: 41 In the context of medieval Islamic taxation, what did Khums refer to?

मध्यकालीन इस्लामी कराधान के संदर्भ में खुम्स का क्या अर्थ था?

A tax on agricultural produce

कृषि उपज पर कर

One-fifth of war booty and hidden wealth

युद्ध लूट और गुप्त धन का पाँचवाँ भाग

A levy on trade caravans

व्यापारिक कारवाँ पर लगाया गया कर

A land revenue assessed annually

वार्षिक रूप से मूल्यांकित भूमि राजस्व

[Click Here to Challenge Question No.: 42](#)

Q.No: 42 Where was the Yonex-Sunrise 47th Inter State – Inter Zonal & Junior National Badminton Championships 2024 held?

योनेक्स-सनराइज 47वीं इंटर स्टेट - इंटर जोनल और जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी?

	Bhubaneswar, Odisha भुवनेश्वर, ओडिशा
	Hyderabad, Telangana हैदराबाद, तेलंगाना
	Lucknow, Uttar Pradesh लखनऊ, उत्तर प्रदेश
	Guwahati, Assam गुवाहाटी, असम
Not Answered	

[Click Here to Challenge Question No.: 43](#)

Q.No: 43	What does an alpha particle represent in the process of alpha decay? अल्फा क्षय की प्रक्रिया में अल्फा कण क्या दर्शाता है?
	Hydrogen हाइड्रोजन
	Helium हीलियम
	Lithium लियियम
	Deuterium ड्यूटेरियम
Not Answered	

[Click Here to Challenge Question No.: 44](#)

Q.No: 44	Fill in the Blank: Jhumar is a folk dance of _____. रिक्त स्थान भरें: झूमर _____ का एक लोक नृत्य है।
	Odisha ओडिशा
	West Bengal पश्चिम बंगाल
	Jharkhand झारखंड
	Gujarat गुजरात

[Click Here to Challenge Question No.: 45](#)

Q.No: 45	The Logistics Performance Index (LPI) is published by which international organization? लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स (LPI) किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है?
	World Bank विश्व बैंक
	IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
	WTO विश्व व्यापार संगठन
	UNCTAD यूएनसीटीएडी

Q.No: 46	<p>Consider the following statements and choose the correct option:</p> <p>Statement 1: Income tax and dividends from PSUs are classified as revenue receipts in the government budget.</p> <p>Statement 2: Disinvestment in PSUs is also a revenue receipt as it brings income to the government.</p> <p>निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए:</p> <p>कथन 1: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त आयकर और लाभांश को सरकारी बजट में राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।</p> <p>कथन 2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश भी एक राजस्व प्राप्ति है क्योंकि इससे सरकार को आय प्राप्त होती है।</p>
	<p>Only Statement 1 is correct</p> <p>केवल कथन 1 सही है</p>
	<p>Only Statement 2 is correct</p> <p>केवल कथन 2 सही है</p>
	<p>Both Statement 1 and Statement 2 are correct</p> <p>कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं</p>
	<p>Neither Statement 1 nor Statement 2 is correct</p> <p>न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है</p>

Q.No: 47	<p>Alluri Sitarama Raju led the Rampa Rebellion in the 1920s, mobilizing tribal communities against British rule. He primarily operated in which modern-day Indian state?</p> <p>अल्लूरी सीताराम राजू ने 1920 के दशक में रम्पा विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासी समुदायों को संगठित किया। उन्होंने मुख्य रूप से किस आधुनिक भारतीय राज्य में काम किया?</p>
	<p>Odisha</p> <p>ओडिशा</p>
	<p>Madhya Pradesh</p> <p>मध्य प्रदेश</p>
	<p>Andhra Pradesh</p> <p>आंध्र प्रदेश</p>
	<p>Chhattisgarh</p> <p>छत्तीसगढ़</p>

Not Answered

Q.No: 48	<p>What was the aim of the Sixth Plan (1980-85)?</p> <p>छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) का उद्देश्य क्या था?</p>
	<p>Defense expansion</p> <p>रक्षा विस्तार</p>
	<p>Faster industrialization</p> <p>तेज़ औद्योगीकरण</p>
	<p>Poverty reduction and modernization</p> <p>गरीबी उन्मूलन और आधुनिकीकरण</p>
	<p>Export-led growth</p> <p>निर्यात-आधारित विकास</p>

Q.No: 49	<p>Identify the tribal leader who led the Kol Revolt (1831-1832) in Chotanagpur against British exploitation.</p> <p>उस आदिवासी नेता की पहचान करें जिसने ब्रिटिश शोषण के खिलाफ छोटानागपुर में कोल विद्रोह (1831-1832) का नेतृत्व किया था।</p>
	<p>Budhu Bhagat mobilized tribal peasantry in Chotanagpur during the Kol uprising.</p> <p>कोल विद्रोह के दौरान बुधु भगत ने छोटानागपुर में आदिवासी किसानों को संगठित किया।</p>
	<p>Raghunath Mahato initiated a farmers' revolt against forced taxation.</p> <p>रघुनाथ महतो ने जबरन कराधान के खिलाफ किसानों के विद्रोह की शुरुआत की।</p>

Raghoji Bhangre led uprisings in Maharashtra's hilly terrain against colonial forces.

राघोजी भांगरे ने औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों में विद्रोह का नेतृत्व किया।

Tantiya Tope fought alongside Rani Laxmibai during the 1857 Rebellion.

तांत्या टोपे ने 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ाई लड़ी।

[Click Here to Challenge Question No.: 50](#)

Q.No: 50 Read the following statements carefully and choose the **correct** option regarding Assertion (A) and Reason (R).

Assertion (A): Globalization has led to increased outsourcing of services to India.

Reason (R): India offers high-cost, low-skill services to foreign companies.

निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अभिकथन (A) और कारण (R) के संबंध में **सही** विकल्प चुनिए।

अभिकथन (A): वैश्वीकरण के कारण भारत में सेवाओं की आउटसोर्सिंग में वृद्धि हुई है।

कारण (R): भारत विदेशी कंपनियों को उच्च-लागत, कम-कौशल वाली सेवाएँ प्रदान करता है।

Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

A और R दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है।

Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

A is true but R is false.

A सत्य है लेकिन R असत्य है।

A is false but R is true.

A असत्य है लेकिन R सत्य है।

Exam Level	: SSC CGL Tier 1 ▾
Test Date	: 26 Sep 2025
Test Time and Shift	: 12:30 PM (Shift-2)

PART-C (Quantitative Aptitude)

		Click Here to Challenge Question No.: 51
Q.No: 51	Solve: $\sqrt{(7 \times 447 \div 21 + 73 - 26)}$ हल करें: $\sqrt{(7 \times 447 \div 21 + 73 - 26)}$	
	14	
	14	
	15	
	15	
	16	
	16	
	17	
	17	

		Click Here to Challenge Question No.: 52
Q.No: 52	If the simple interest on a certain sum of money for 4 years at 5% per annum is ₹500, what would be the simple interest on the same sum for 6 years at 7% per annum? यदि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज ₹500 है, तो उसी धनराशि पर 7% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा?	
	₹950	
	₹950	
	₹1,000	
	₹1,000	
	₹1,050	
	₹1,050	
	₹1,100	
	₹1,100	

		Click Here to Challenge Question No.: 53
Q.No: 53	Sahil travelled a certain distance by bike at the rate of 25 kmph. And walked back at the rate of 4 kmph. If the whole journey took 5 hours 48 minutes, what was the distance? साहिल ने एक निश्चित दूरी 25 किमी प्रति घंटे की गति से बाइक से तय की और 4 किमी प्रति घंटे की गति से वापस चलकर आया। अगर पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट लगे, तो दूरी कितनी थी?	
	25 km	
	25 किमी	
	22 km	
	22 किमी	
	20 km	
	20 किमी	
	18 km	
	18 किमी	

Q.No: 54	The angles of elevation of the top of a cliff from two points on the ground, 200 m apart, and on opposite sides of the cliff are 30° and 45° . What is the height of the cliff? चट्टान के शीर्ष के उन्नयन कोण जमीन पर दो बिंदुओं से, जो एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर हैं, और चट्टान के विपरीत दिशा में हैं, 30° और 45° हैं। चट्टान की ऊँचाई क्या है?
	$100(\sqrt{3} + 1)m$ $100(\sqrt{3} + 1)$ मीटर
	$200(\sqrt{3} - 1)m$ $200(\sqrt{3} - 1)$ मीटर
	$100(\sqrt{3} - 1)m$ $100(\sqrt{3} - 1)$ मीटर
	200 m 200 मीटर

Not Answered

Q.No: 55	A cuboid has a volume of 350 cm^3 and its length is twice its height. If the breadth is 7 cm, find its dimensions. एक घनाभ का आयतन 350 घन सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई इसकी ऊँचाई की दोगुनी है। यदि चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसके आयाम ज्ञात कीजिए।
	$14 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} \times 7 \text{ cm}$ 14 सेंटीमीटर \times 7 सेंटीमीटर \times 7 सेंटीमीटर
	$12 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$ 12 सेंटीमीटर \times 7 सेंटीमीटर \times 6 सेंटीमीटर
	$10 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ 10 सेंटीमीटर \times 7 सेंटीमीटर \times 5 सेंटीमीटर
	$8 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$ 8 सेंटीमीटर \times 7 सेंटीमीटर \times 4 सेंटीमीटर

Q.No: 56	P starts a business with Rs. 8,000. Q joins after 5 months with Rs. 12,000. If the profit at the end of the year is Rs. 6,800, what is Q's share (approx.)? P, 8,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। Q, 5 महीने बाद, 12,000 रुपये के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। अगर वर्ष के अंत में लाभ 6,800 रुपये है, तो Q का हिस्सा (लगभग) क्या है?
	Rs. 1,173.33 1,173.33 रुपये
	Rs. 2,173.33 2,173.33 रुपये
	Rs. 3,173.33 3,173.33 रुपये
	Rs. 4,173.33 4,173.33 रुपये

Q.No: 57	The sum of the interior angles of a regular polygon is six times the sum of its exterior angles. Determine the number of diagonals in the polygon. एक समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, उसके बाह्य कोणों के योग का छः गुना है। बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए।
	67
	67
	77

77
59
59
97
97

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 58](#)

Q.No: 58 A trader marks his goods 40% above the cost price and gives a discount of 25%.

If he gains Rs. 75 on an item, what is the cost price of the item?

एक व्यापारी अपनी वस्तु की अंकित कीमत उसके लागत कीमत से 40% ज्यादा रखता है और 25% की छूट देता है।

अगर उसे किसी वस्तु पर 75 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु की लागत कीमत क्या है?

Rs. 2500

2500 रुपये

Rs. 3000

3000 रुपये

Rs. 4000

4000 रुपये

Rs. 1500

1500 रुपये

[Click Here to Challenge Question No.: 59](#)

Q.No: 59 A plot has an area of 625 m². If a footpath 1 m wide is constructed around it, what is the total area including the footpath?

एक प्लॉट का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। अगर इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाया जाए, तो फुटपाथ सहित कुल क्षेत्रफल कितना होगा?

729 m²

729 वर्ग मीटर

676 m²

676 वर्ग मीटर

784 m²

784 वर्ग मीटर

756 m²

756 वर्ग मीटर

[Click Here to Challenge Question No.: 60](#)

Q.No: 60 A bag contains red, blue, and green balls in the ratio 4:5:6. If 6 red balls are removed and 3 green balls are added, the new ratio becomes 2:5:7. How many red balls were originally in the bag?

एक थैले में लाल, नीली और हरी गेंदें 4:5:6 के अनुपात में हैं। अगर 6 लाल गेंदें निकाल दी जाएँ और 3 हरी गेंदें डाल दी जाएँ, तो नया अनुपात 2:5:7 हो जाता है। थैले में मूल रूप से कितनी लाल गेंदें थीं?

12

12

24

24

36

36

40

40

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 61](#)

Q.No: 61	A train covers 3 equal distances at speeds in the ratio 4:5:6. What is the ratio of the average speed over the entire journey to the lowest speed? एक रेलगाड़ी 4:5:6 के अनुपात में गति से 3 समान दूरियाँ तय करती है। पूरी यात्रा में औसत गति और न्यूनतम गति का अनुपात क्या है?
	15:4
	15:4
	60:17
	60:17
	45:37
	45:37
	60:13
	60:13
Not Answered	

[Click Here to Challenge Question No.: 62](#)

Q.No: 62	A reduction of 20% in the price of sugar enables a person to buy 5 kg more for Rs. 200. What is the original price per kg? चीनी की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 200 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या है?
	Rs. 20
	20 रुपये
	Rs. 10
	10 रुपये
	Rs. 5
	5 रुपये
	Rs. 15
	15 रुपये

[Click Here to Challenge Question No.: 63](#)

Q.No: 63	The average temperature of a city from Monday to Friday is 40° C. If the temperature on Saturday is 45° C, what will be the average temperature from Monday to Saturday? एक शहर का सोमवार से शुक्रवार तक औसत तापमान 40°C है। अगर शनिवार को तापमान 45°C है, तो सोमवार से शनिवार तक औसत तापमान क्या होगा?
	41.35° C
	41.35° C
	42° C
	42° C
	40.83° C
	40.83° C
	41° C
	41° C

[Click Here to Challenge Question No.: 64](#)

Q.No: 64	An online retailer offers a Rs. 150 discounts on an item originally priced at Rs. 1200. What percentage discount is being offered? एक ऑनलाइन रिटेलर 1200 रुपये की मूल कीमत वाली वस्तु पर 150 रुपये की छूट दे रहा है। कितने प्रतिशत छूट दी जा रही है?
	10.5%
	10.5%
	12.5%
	12.5%
	15.5%
	15.5%
	20.5%
	20.5%

[Click Here to Challenge Question No.: 65](#)

Q.No: 65	A shopkeeper marks an article at Rs. 720 and gives a discount of Rs. 144. He earns a profit of Rs. 36. What is the cost price of the article? एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 720 रुपये अंकित करता है और 144 रुपये की छूट देता है। उसे 36 रुपये का लाभ होता है। क्रय मूल्य क्या है?
	Rs. 500
	500 रुपये
	Rs. 520
	520 रुपये
	Rs. 540
	540 रुपये
	Rs. 560
	560 रुपये

[Click Here to Challenge Question No.: 66](#)

Q.No: 66	A train travels the first 100 km at 50 km/h and the next 100 km at 25 km/h. What is the average speed for the total journey? एक रेलगाड़ी पहले 100 किमी 50 किमी/घंटे की गति से और अगले 100 किमी 25 किमी/घंटे की गति से चलती है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है?
	33.33 km/h
	33.33 किमी/घंटा
	37.5 km/h
	37.5 किमी/घंटा
	35 km/h
	35 किमी/घंटा
	40.33 km/h
	40.33 किमी/घंटा

[Click Here to Challenge Question No.: 67](#)

Q.No: 67	66 women can do a piece of work in 79 days. Find the number of days required by 6 women to complete $\frac{1}{11}$ th of the work. 66 महिलाएं एक काम को 79 दिनों में कर सकती हैं। 6 महिलाओं को उस काम का $\frac{1}{11}$ भाग पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?
	75
	75
	77
	77
	80
	80
	79
	79

[Click Here to Challenge Question No.: 68](#)

Q.No: 68	A rectangle has a length that is four times its width. If the perimeter is 100 cm, what is the area of the rectangle? एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की चार गुनी है। यदि परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है?
	400 cm ²
	400 वर्ग सेंटीमीटर
	500 cm ²
	500 वर्ग सेंटीमीटर
	540 cm ²
	540 वर्ग सेंटीमीटर
	640 cm ²
	640 वर्ग सेंटीमीटर

[Click Here to Challenge Question No.: 69](#)

Q.No: 69 If $\sin A = \frac{2x}{(1+x^2)}$, then what is $\tan A$ in terms of x ?
यदि $\sin A = \frac{2x}{(1+x^2)}$, तो $\tan A$ का मान x के रूप में ज्ञात कीजिए.

$\frac{2x}{(1-x^2)}$

$\frac{2x}{(1+x^2)}$

x

x

$\frac{1}{x}$

$\frac{1}{x}$

$\frac{(1-x^2)}{2x}$

$\frac{(1-x^2)}{2x}$

[Click Here to Challenge Question No.: 70](#)

Q.No: 70 A tank contains 120 litres of liquid, 30% of which is alcohol. If 30 litres of this mixture is replaced by another liquid containing 50% alcohol, what is the percentage of alcohol in the resulting solution?

एक टैंक में 120 लीटर तरल है, जिसमें से 30% अल्कोहल है। अगर इस मिश्रण के 30 लीटर को 50% अल्कोहल वाले एक अन्य तरल से बदल दिया जाए, तो परिणामी घोल में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा?

34%

34%

35%

35%

36%

36%

37%

37%

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 71](#)

Q.No: 71 What is the radian measure of 270° ?

270° का रेडियन माप क्या है?

$\frac{3\pi}{2}$

$\frac{3\pi}{2}$

$\frac{\pi}{2}$

$\frac{\pi}{2}$

$\frac{\pi}{3}$

$\frac{\pi}{3}$

$\frac{\pi}{4}$

$\frac{\pi}{4}$

[Click Here to Challenge Question No.: 72](#)

Q.No: 72 If $\sin x = \cos y$ and $\cos x = \sin y$, then $x + y$ equals:

यदि $\sin x = \cos y$ और $\cos x = \sin y$, तो $x + y$ बराबर है:

45°

45°

60°

60°

90°
90°
180°
180°

[Click Here to Challenge Question No.: 73](#)

Q.No: 73	A triangle with sides 5 cm, 12 cm, and 13 cm has an inradius of 2 cm. What is its area? 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की अन्तःत्रिज्या 2 सेमी है। इसका क्षेत्रफल क्या है?
	10 cm ²
	10 सेमी ²
	20 cm ²
	20 सेमी ²
	30 cm ²
	30 सेमी ²
	40 cm ²
	40 सेमी ²

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 74](#)

Q.No: 74	In a circle, there is a chord measuring 20 cm that is located 15 cm away from the center. What is the approximate radius of the circle? एक वृत्त में, 20 सेमी माप की एक जीवा है जो केंद्र से 15 सेमी दूर स्थित है। वृत्त की अनुमानित त्रिज्या क्या है?
	10 cm
	10 सेमी
	18 cm
	18 सेमी
	20 cm
	20 सेमी
	25 cm
	25 सेमी

[Click Here to Challenge Question No.: 75](#)

Q.No: 75	A tangent is drawn to a circle with a radius of 5 cm. At the point of tangency, what is the angle between the tangent and the radius? 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण क्या है?
	45°
	45°
	60°
	60°
	90°
	90°
	180°
	180°

Exam Level	: SSC CGL Tier 1 ▼
Test Date	: 26 Sep 2025
Test Time and Shift	: 12:30 PM (Shift-2)

PART-D (English Comprehension)

[Click Here to Challenge Question No.: 76](#)

Q.No: 76 Read the passage and answer the questions:

Modern research increasingly underscores the indispensable role of sleep in maintaining cognitive function, emotional stability, and physical health. Sleep is not a passive state of rest but an active, meticulously orchestrated biological process involving intricate neural and hormonal regulation. During sleep, the brain undergoes vital activities such as memory consolidation, synaptic pruning, and the detoxification of metabolic waste. Deprivation or disruption of this process has been conclusively linked to a heightened risk of chronic illnesses, including cardiovascular disease, diabetes, and depression.

Establishing a consistent sleep routine is pivotal in optimizing the quality and restorative power of sleep. Erratic sleep schedules, often exacerbated by artificial lighting and digital device usage, desynchronize the body's circadian rhythms—an internal clock that governs sleep-wake cycles. This misalignment can lead to a condition known as social jetlag, wherein individuals experience chronic fatigue and impaired performance due to conflicts between biological and social time.

Experts advocate for the cultivation of disciplined habits: retiring and rising at the same times daily, creating a dark and cool sleeping environment, and disengaging from stimulating activities at least an hour before bedtime. Moreover, while occasional short naps may be beneficial, reliance on irregular napping patterns can further fragment night time sleep and erode circadian stability. Ultimately, treating sleep with the same seriousness accorded to nutrition and exercise is essential for fostering resilience, productivity, and long-term well-being.

Identify the correct form of the verb to complete the sentence:

"Sleep is not a passive state of rest but an active, meticulously orchestrated biological process involving intricate neural and hormonal _____."

- regulates
- regulation**
- regulating
- regulated

[Click Here to Challenge Question No.: 77](#)

Q.No: 77 Read the passage and answer the questions:

Modern research increasingly underscores the indispensable role of sleep in maintaining cognitive function, emotional stability, and physical health. Sleep is not a passive state of rest but an active, meticulously orchestrated biological process involving intricate neural and hormonal regulation. During sleep, the brain undergoes vital activities such as memory consolidation, synaptic pruning, and the detoxification of metabolic waste. Deprivation or disruption of this process has been conclusively linked to a heightened risk of chronic illnesses, including cardiovascular disease, diabetes, and depression.

Establishing a consistent sleep routine is pivotal in optimizing the quality and restorative power of sleep. Erratic sleep schedules, often exacerbated by artificial lighting and digital device usage, desynchronize the body's circadian rhythms—an internal clock that governs sleep-wake cycles. This misalignment can lead to a condition known as social jetlag, wherein individuals experience chronic fatigue and impaired performance due to conflicts between biological and social time.

Experts advocate for the cultivation of disciplined habits: retiring and rising at the same times daily, creating a dark and cool sleeping environment, and disengaging from stimulating activities at least an hour before bedtime. Moreover, while occasional short naps may be beneficial, reliance on irregular napping patterns can further fragment night time sleep and erode circadian stability. Ultimately, treating sleep with the same seriousness accorded to nutrition and exercise is essential for fostering resilience, productivity, and long-term well-being.

Choose the correct relative clause connector:

"This misalignment can lead to a condition _____ individuals experience chronic fatigue."

- who

	which
	where
	when

[Click Here to Challenge Question No.: 78](#)

Q.No: 78	<p>Read the passage and answer the questions:</p> <p>Modern research increasingly underscores the indispensable role of sleep in maintaining cognitive function, emotional stability, and physical health. Sleep is not a passive state of rest but an active, meticulously orchestrated biological process involving intricate neural and hormonal regulation. During sleep, the brain undergoes vital activities such as memory consolidation, synaptic pruning, and the detoxification of metabolic waste. Deprivation or disruption of this process has been conclusively linked to a heightened risk of chronic illnesses, including cardiovascular disease, diabetes, and depression.</p> <p>Establishing a consistent sleep routine is pivotal in optimizing the quality and restorative power of sleep. Erratic sleep schedules, often exacerbated by artificial lighting and digital device usage, desynchronize the body's circadian rhythms—an internal clock that governs sleep-wake cycles. This misalignment can lead to a condition known as social jetlag, wherein individuals experience chronic fatigue and impaired performance due to conflicts between biological and social time.</p> <p>Experts advocate for the cultivation of disciplined habits: retiring and rising at the same times daily, creating a dark and cool sleeping environment, and disengaging from stimulating activities at least an hour before bedtime. Moreover, while occasional short naps may be beneficial, reliance on irregular napping patterns can further fragment night time sleep and erode circadian stability. Ultimately, treating sleep with the same seriousness accorded to nutrition and exercise is essential for fostering resilience, productivity, and long-term well-being.</p> <p>What does "synaptic pruning" most likely refer to in the context of sleep?</p>
	Growing new brain cells
	Strengthening all neural connections
	Removing unnecessary brain connections
	Halting brain activity completely

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 79](#)

Q.No: 79	<p>Read the passage and answer the questions:</p> <p>Modern research increasingly underscores the indispensable role of sleep in maintaining cognitive function, emotional stability, and physical health. Sleep is not a passive state of rest but an active, meticulously orchestrated biological process involving intricate neural and hormonal regulation. During sleep, the brain undergoes vital activities such as memory consolidation, synaptic pruning, and the detoxification of metabolic waste. Deprivation or disruption of this process has been conclusively linked to a heightened risk of chronic illnesses, including cardiovascular disease, diabetes, and depression.</p> <p>Establishing a consistent sleep routine is pivotal in optimizing the quality and restorative power of sleep. Erratic sleep schedules, often exacerbated by artificial lighting and digital device usage, desynchronize the body's circadian rhythms—an internal clock that governs sleep-wake cycles. This misalignment can lead to a condition known as social jetlag, wherein individuals experience chronic fatigue and impaired performance due to conflicts between biological and social time.</p> <p>Experts advocate for the cultivation of disciplined habits: retiring and rising at the same times daily, creating a dark and cool sleeping environment, and disengaging from stimulating activities at least an hour before bedtime. Moreover, while occasional short naps may be beneficial, reliance on irregular napping patterns can further fragment night time sleep and erode circadian stability. Ultimately, treating sleep with the same seriousness accorded to nutrition and exercise is essential for fostering resilience, productivity, and long-term well-being.</p> <p>What is the meaning of "desynchronize" as used in the passage?</p>
	To align with a schedule
	To disrupt coordination
	To improve timing
	To duplicate patterns

Q.No: 80 Read the passage and answer the questions:

Modern research increasingly underscores the indispensable role of sleep in maintaining cognitive function, emotional stability, and physical health. Sleep is not a passive state of rest but an active, meticulously orchestrated biological process involving intricate neural and hormonal regulation. During sleep, the brain undergoes vital activities such as memory consolidation, synaptic pruning, and the detoxification of metabolic waste. Deprivation or disruption of this process has been conclusively linked to a heightened risk of chronic illnesses, including cardiovascular disease, diabetes, and depression.

Establishing a consistent sleep routine is pivotal in optimizing the quality and restorative power of sleep. Erratic sleep schedules, often exacerbated by artificial lighting and digital device usage, desynchronize the body's circadian rhythms—an internal clock that governs sleep-wake cycles. This misalignment can lead to a condition known as social jetlag, wherein individuals experience chronic fatigue and impaired performance due to conflicts between biological and social time.

Experts advocate for the cultivation of disciplined habits: retiring and rising at the same times daily, creating a dark and cool sleeping environment, and disengaging from stimulating activities at least an hour before bedtime. Moreover, while occasional short naps may be beneficial, reliance on irregular napping patterns can further fragment night time sleep and erode circadian stability. Ultimately, treating sleep with the same seriousness accorded to nutrition and exercise is essential for fostering resilience, productivity, and long-term well-being.

According to the passage, what is a recommended practice to enhance sleep quality?

Taking long naps throughout the day

Using digital devices right before bed

Maintaining consistent sleeping and waking times

Sleeping at random times depending on tiredness

Click Here to Challenge Question No.: 81

Q.No: 81 Fill in the blank with the correctly spelt word.

Their explanation was filled with _____, making it hard to discern the truth.

obfuscation

obfusscation

obfascation

obfescation

Click Here to Challenge Question No.: 82

Q.No: 82 Complete the collocation by choosing a suitable word to fill in the blank.

Although the candidate lacked the conventional qualifications, she managed to secure the prestigious internship after her mentor discreetly _____ within the organization.

call it a day

to the point

in the long term

pulled a few strings

Click Here to Challenge Question No.: 83

Q.No: 83 Select the most appropriate antonym of the given word. **Quell**

Suppress

Provoke

Subdue

Restrain

[Click Here to Challenge Question No.: 84](#)

Q.No: 84 Choose the correct meaning of idiom:
Sitting on the fence

Supporting the weaker side

Remaining undecided

Taking immediate action

Speaking openly

[Click Here to Challenge Question No.: 85](#)

Q.No: 85 Choose the correct meaning of idiom:
Make a clean breast of it

To admit something honestly

To run away quickly

To change sides

To start a new job

[Click Here to Challenge Question No.: 86](#)

Q.No: 86 Choose the correct meaning of idiom:
Rising to the occasion

Performing exceptionally under pressure

Evading failure with excuses

Taking advantage of a mistake

Over-preparing for a situation

[Click Here to Challenge Question No.: 87](#)

Q.No: 87 Which of these is the **correct spelling** of a concept describing moral independence?

Autarky

Autarke

Autarcky

Autarchey

[Click Here to Challenge Question No.: 88](#)

Q.No: 88 Spot the **correct spelling** of a schizotypal personality adj.

Schizotipal

Schizotypal

[Click Here to Challenge Question No.: 89](#)

Q.No: 89 Choose the correct **one-word substitute** for: 'A person who is fond of luxury and indulgence in sensual pleasures '.

Stoic

Aesthete

Ascetic

Sybarite

[Click Here to Challenge Question No.: 90](#)

Q.No: 90 Choose the correct **one-word substitute** for: A substance that induces insensitivity to pain

Sedative

Analgesic

Stimulant

Tranquilizer

[Click Here to Challenge Question No.: 91](#)

Q.No: 91 Find the part of the sentence that contains an error:

Several of the evidences (1)/ presented during the hearing (2)/ were considered circumstantial at best (3)/ and irrelevant at worst. (4)

(1)

(2)

(3)

(4)

[Click Here to Challenge Question No.: 92](#)

Q.No: 92 Change the following from active to passive:

They had instructed us to prioritize systemic reforms.

We were instructed by them to prioritize systemic reforms.

We have been instructed by them to prioritize systemic reforms.

We are being instructed by them to prioritize systemic reforms.

We had been instructed by them to prioritize systemic reforms.

[Click Here to Challenge Question No.: 93](#)

Q.No: 93 Select the sentence containing the homonym of the highlighted word:

The professor's **dispatch** of the rebuttal was swift and unyielding.

The war correspondent filed a dispatch from the front lines.

The diplomat's dispatch was firm but delayed.

The minister's dispatch of aid drew criticism.

The editor hailed the dispatch of bureaucratic red tape.

[Click Here to Challenge Question No.: 94](#)

Q.No: 94 **Convert the sentence provided below from its passive voice structure to an active voice structure:**

The suggestion that the vote had been manipulated was vehemently denied.

The vote denied the manipulation of the suggestion.

Someone denied manipulating the vote.

It was denied that the vote had been manipulated.

It was denied that someone manipulated the vote suggestion.

[Click Here to Challenge Question No.: 95](#)

Q.No: 95 **Choose the most suitable option to replace the highlighted part of the sentence:**

He suggested that *we should to leave early.*

should leave early

will leave early

must to leave early

would leave early

[Click Here to Challenge Question No.: 96](#)

Q.No: 96 **Select the correct option for the Direct Speech conversion of the sentence below.**

The lecturer argued that, given sufficient entropic isolation, the reaction rate could asymptotically approach zero.

The lecturer said, "Given sufficient entropic isolation, the reaction rate could asymptotically approach zero."

The lecturer said, "If sufficient entropic isolation was given, the reaction rate will asymptotically approach zero."

The lecturer said, "Given sufficient entropic isolation, the reaction rate can asymptotically approach zero."

The lecturer said, "If the reaction rate approached zero, it must have had sufficient entropic isolation."

Not Answered

[Click Here to Challenge Question No.: 97](#)

Q.No: 97 **A sentence is provided in direct speech. From the four given options, choose the one that most accurately conveys the sentence in its corresponding indirect speech.**

Father said, "Don't speak loudly."

Father said don't speak loudly.

Father told me not to speak loudly.

Father asked not to speak loudly.

Father said to me not speaking loudly.

Q.No: 98 **Rearrange the following sentences in correct order to make a logical passage:**

1. The team identified the core issues that needed to be addressed.
2. Solutions were proposed to resolve these issues.
3. A report was compiled to outline the findings.
4. The team implemented the solutions based on priority.

3-1-2-4

1-2-4-3

4-1-3-2

2-3-4-1

Not Answered

Click Here to Challenge Question No.: 99

Q.No: 99 **Rearrange the following sentences to form a coherent paragraph:**

1. The process involves a specific set of tools and commands that allow for the manipulation and tracking of changes.
2. Version control is a system that records changes to a file or set of files over time so that you can recall specific versions later.
3. This is especially useful in software development, where multiple programmers can work on the same codebase simultaneously without conflict.
4. By using version control, a project can maintain a complete history of its development, allowing for easy rollback and collaboration.

2, 4, 1, 3

2, 1, 4, 3

1, 2, 3, 4

4, 1, 2, 3

Not Answered

Click Here to Challenge Question No.: 100

Q.No: 100 **Rearrange the following sentences in correct order to make a logical passage.**

1. This can be achieved through regular reading and practice.
2. Improving vocabulary is essential for effective writing.
3. A wide vocabulary allows for greater precision and nuance.
4. It also enhances comprehension of complex texts.

2-1-3-4

2-4-1-3

4-3-2-1

2-3-4-1